

सेवा में,

सहायक अभियंता
-सह-
नगर निवेशक
चास नगर निगम।

अविज्ञ

विषय:- भवन नक्शा स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्राप्त संख्या-CMC/BP/0121/W02/2024 का भू-सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आवेदक/आवेदिका श्री रमेश पिता/पति- श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित आवेदन भू- संबंधित दस्तावेज में अंकित खाता सं०- 456 प्लॉट सं०- 991 रकबा- 8.50 डिसमील, मौजा- चास, थाना संख्या- 30 में आवेदक/एल0टी0पी0 के उपस्थिति में स्थल में स्थलीय जांच किया गया। जिसका जांच प्रतिवेदन निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	जांच उपरान्त पाया	अभियुक्ति
1	डिड का प्रति	संलग्न	
2	शुद्धी पत्र	संलग्न	
3	मालगुजारी रशिद	संलग्न	
4	खतियान एवं अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जमाबन्दी प्रमाण पत्र।	संलग्न	
5	खतियान/जमाबन्दी प्रमाण पत्र के अनुसार भूमि प्रकृति (शासकीय/लगानीय)	लगानीय	
6	सर्वे नक्सा में भूमि की स्थिति (सही/ भ्रमक)	सही	
7	आवेदक द्वारा भूमि का मापी संबंधित जानकारी (सही/भ्रमक)	सही	
8	सर्वे नक्सा के अनुसार भूमि की प्रकृति (शासकीय/ लगानीय)	लगानीय	

उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं स्थलीय जांच के क्रम में भूमि का मापी करतें हुए ट्रेडिंग नक्सा तैयार कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु०:- ट्रेडिंग नक्सा मूल प्रति।

Dr. Rajesh Kumar
[Signature]

विश्वासभाजन

[Signature]
29/08/2024

अमीन
राजेश कुमार

अमीन -सह- स्थल निरक्षण रिपोर्ट

मौजा- चास
मौजा नं०-30

शीट नं०- 2

अंचल- चास

अनुमंडल- चास

जिला- बोकारों

भू- स्वामी का नाम- श्री रमेश

आवेदन सं०- CMC/BP/0121/W02/2024

क०स०	मौजा	खाता	प्लॉट	रकवा
1	चास (30)	456	991	8.5 डि०

तफशील सम्पत्ति:-जिला-बोकारो, अनुमंडल-चास, अंचल-चास, थाना-चास, अन्तर्गत मौजा- चास, मौजा नं०-30, खाता सं०- 456 प्लॉट सं०- 991 रकवा- 8.5 डिसमील,, आवेदक द्वारा भवन निर्माण हेतु कुल रकवा- 8.5 डिसमील प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि आवेदक को निबंधन सं०- 1900 के द्वारा प्राप्त है। जिसे ट्रेशींग नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है।

नोट:- आवेदक द्वारा समर्पित राजस्व कागजाद में वर्णित खाता एवं प्लॉट संख्या को सर्वे नक्शा में मिलान किया गया। उक्त आवेदन पर भवदीय द्वारा विचार किया जा सकता है।



चौहदी:- उ०- उक्त प्लॉट का अंश।

द०-उक्त प्लॉट का अंश।

पु०-उक्त प्लॉट का अंश।

प०- मानव निर्मित रास्ता।

मुस्तकिल:-



[Signature]
29/08/2024

अमीन
राजेश साव